



## प्रशिक्षण पुस्तिका- तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में स्वास्थ्य जागरूकता



संकल्पना

डॉ. गौरवी मिश्रा, एम.डी

डॉ. शर्मिला यिंयळे, एम.डी

टाटा स्मारक रूणालय  
कर्कशेग प्रतिबंधक विभाग

प्रकाशन क्रमांक 3B / 2019

**प्रशिक्षण पुस्तिका -**

**तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में**

**स्वास्थ्य जागरूकता**

## कर्करोग प्रतिबंधक विभाग

### DEPARTMENT OF PREVENTIVE ONCOLOGY

भारत में 2018 में ग्लोबोकॉन (GLOBOCAN 2018) के सर्वे अनुसार अनुमानित रूप में लगभग 11,57,294 नये कर्करोग रूण, 7,84,821 मृत कर्करोगी और 22,58,208 कर्करोग्यस्त मरिज याए गये। भारतीयोंमें मुख्य रूपसे स्तन, होठ, मुँह, गर्भशयमुख, केफडे और पेट थेसे याच कर्करोग याए जाते है। भारतीय लोगोंमें याए जानेवाले कर्करोगमें स्तन, होठ, मुँहका कर्करोग, गर्भशयमुख कर्करोग इनका प्रमाण 32.8% है। इस कर्करोग का प्रतिबंध हो सकता है, जल्द जाँच और निदान किया जा सकता है और कर्करोग का प्रथम अवस्थामें इलाज हो सकता है। इसलिए इस कर्करोगसे होनेवाली मृत्यूमें भी लक्षणीय घट हो सकती है।

विकासशील देशोंपर विशेषतः भारत पर कर्करोग का अधिकतम बोझ होनेका असली कारण यह है की 70% से अधिक मरिजोंके निदान देर से होते है और अधिक प्रगत अवस्थामें कर्करोग यहुँचनेपर इलाज के लिए भेजा जाता है। बेदना और दुःख के व्यतिरिक्त कर्करोगकी पिण्ड रूण और उसके परिवार बालोंको भुगतने पड़ती है। इस बिमारी का आर्थिक प्रभाव आपत्तीजनक है। सहज प्रतिबंधात्मक उपाय और नियमित जाँच से यह मृत्यु प्रमाण बढ़े पैमाने में कम हो सकता है और आरोग्य के अन्य भी फायदे हो सकते हैं। सर्वसामान्य कर्करोगके प्रतिबंध और जल्द निदान इस मुख्य उद्देश्य से टाटा स्मारक स्टण्टलयाने मार्च 1993 साल में कर्करोग प्रतिबंधक विभाग शुरू किया। तब से, कर्करोग प्रतिबंधक विभाग, कर्करोग की खबरदारी, कर्करोग के रोकथाम की युटी और यदि कीई प्रारंभिक निदान होता है तो इससे क्या फायदे है इस विषय में जनजागृती बढ़ा रहा है। जैसे-जैसे कर्करोग के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ेगा वैसे स्वस्थ्य जीवन के लिए जल्द निदान का प्रमाण बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप, देश का कर्करोग का बोझ कम होना शुरू होगा।

कर्करोग प्रतिबंधक विभाग, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई यह कर्करोग प्रतिबंध, जाँच और निदान (IND 59), क्षेत्र SEARO, के लिए सन 2002 से WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। इस विभाग के याच प्रमुख कार्य है:

- जानकारी, शिक्षा और संघर्ष (IEC)
- चिकित्सीय और समुदाय-आधारित, अवसरवादी जाँच
- स्वास्थ्य मानव विकास
- विज्ञान, धन.जी.ओ प्रशिक्षण और नेटवर्किंग
- संशोधन

कर्करोग प्रतिबंध विभाग का पता : तीसरी मंजिल, सर्विस ब्लॉक बिल्डिंग, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, परेल, मुंबई - 400012, संघर्ष : +91-22-24154379, ई-मेल : preventive@tmc.gov.in



प्रशिक्षण पुस्तिका -  
तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में स्वास्थ्य  
जागरूकता

डॉ. गौरवी मिश्रा,  
प्रोफेसर अँन्ड फिजिशियन, कर्करोग प्रतिबंधक विभाग

डॉ. शार्मिला विंयले,  
प्रोफेसर अँन्ड फिजिशियन, कर्करोग प्रतिबंधक विभाग

प्रकाशन क्रमांक – 3B/2019

टाटा मेमोरियल सेंटर  
प्रिवेटी अँन्कोलॉजी विभाग  
मुंबई - 400012, भारत

**प्रकाशकः**  
कर्करोग प्रतिबंधक विभाग  
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल

© कर्करोग प्रतिबंधक विभाग, 2019

**वितरक :**  
कर्करोग प्रतिबंधक विभाग

कर्करोग प्रतिबंधक विभाग ([preventive@tmc.gov.in](mailto:preventive@tmc.gov.in))

प्रकाशक को कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त है। इस पुस्तक की प्रतिलिपि बनाना, इसे किसी वेबसाइट पर पोस्ट करना या बिना अनुमति के किसी अन्य माध्यम से वितरित करना अवैध है।

पूर्ण अथवा आंशिक रूप में पुनः प्रकाशन या अनुवाद के लिए,  
प्रकाशकों को आवेदन किया जाना चाहिए।

## विषय- सूची

प्रस्तावना.....	VII
आभार.....	IX
1. पृष्ठभूमी.....	1
2. तंबाकू और कर्करोग.....	3
3. भारत में सेवन किए जानेवाले तंबाकू के विविध प्रकार.....	4
4. तंबाकू के धोकादायक परिणाम.....	5
5. तंबाकू की वजह से होनेवाले कर्करोग .....	7
6. स्वास्थ्य पर धूम्रपान का प्रभाव .....	10
7. तंबाकू छोड़ने के सूझाव.....	12
8. तंबाकू के पुरुषोंपर होने वाले परिणाम.....	13
9. तंबाकू के महिलाओंपर होने वाले परिणाम.....	14
10.अप्रत्यक्ष धूम्रपान के बच्चोंपर होने वाले परिणाम .....	15
11.तंबाकू के धूएं में मौजूद घटकों की संरचना.....	17
12.तंबाकू और जीवन.....	19
13.तंबाकू का आर्थिक प्रभाव.....	21
14.तंबाकू और विज्ञापन.....	22
15.तंबाकू और परिवार.....	23
16.तंबाकू छोड़ने के लिए प्रयास.....	24
17.तंबाकू और मय.....	25
18.निष्कर्ष.....	27
19.संदर्भ.....	28



## प्रस्तावना

भारत कर्करोग, मधुमेह, हृदय रोग और दिल का दौरा (NPCDCS) इनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अग्रेसर है। स्वास्थ्यसेवा राज्य की जिम्मेदारी है, विभिन्न राज्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कर्करोग नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश हैं। हालाँकि, राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के कर्मचारियोंको कर्करोग जागरूकता या आम कर्करोग जाँच करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल में कर्करोग प्रतिबंधक विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यह पुस्तिका मुँह के कर्करोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कर्करोग जागरूकता सत्र आयोजित करने के लिए रुग्णसेवा कर्मचारी, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHAs), सहायक नर्स मिडवाइफरी (ANMs), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs), प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (PHWs), सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक (CHVs) इन सरकारी और निजी कर्मचारियों को मार्गदर्शन करेगी। हमारा इरादा इस पुस्तिका का अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है, ताकि इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके।

डॉ. गौरवी मिश्रा और डॉ. शर्मिला पिंपळे



## आभार

लेखक इस पुस्तिका को तैयार करने में उनके बहुमूल्य और अथक योगदान के लिए कर्करोग प्रतिबंधक विभाग, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निम्नलिखित कर्मियों का कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करते हैं:

श्रीमती. परिशी मजमुदार इन्होंने इस हस्तपुस्तिका के चित्रोंका विवेचन किया है।

डॉ. वसुंधरा कुलकर्णी, डॉ. पल्लवी उपलप, डॉ. एस. एस. शास्त्री और सौ. क्षमा वैरागी, इन्होंने इस पुस्तिका के विभिन्न संस्करणों को संपादन करने में सहायता की है।

श्री. तुषार जाधव इन्होंने इस हस्तपुस्तिका की रचना, मुख्यपृष्ठ, अनुवाद और टंकलेखन किया है।

श्री. दत्तात्रय पवार इन्होंने इस पुस्तिका के व्याकरण सुधार में सहायता की है।

हम डॉ. श्रीपाद बनावली, शिक्षाविदों के निदेशक (Director Academics), टाटा मेमोरियल सेंटर के इस पुस्तिका को लाने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत आभारी हैं।



## पृष्ठभूमी


लगभग 400 साल पहले, पुर्तगाली भारत में तम्बाकू लाए थे और गोवा में उनके गृहनगर में तंबाकू व्यापार की परंपरा शुरू की। दो सौ वर्षों के बाद, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादित सिगरेट पेश की और हमारे देश में तम्बाकू उत्पादन की स्थापना की।<sup>(1)</sup> तंबाकू का उपयोग दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। विश्व स्तर पर तंबाकू 100 से अधिक देशों में उगाया जाता है। तंबाकू की फसल काटने के बाद, अधिकांश प्रकारोंको खेतों में विशेष तरीके से सुखाने और भूननेकी प्रक्रिया की जाती हैं। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, पाइप आदि धूम्रपान के विभिन्न रूपों में शामिल हैं। धूम्रपान रहित प्रकारों में चबाने वाला तंबाकू, मुँह में भरके रखनेवाला, पान, मावा, सूंघना, खैनी, गुटखा आदि शामिल हैं। तंबाकू के कुछ रूपों का उपयोग पान के साथ किया जाता है और कुछ बिना पान के जैसे मशेरी, जर्दा और कीवन का भी उपयोग किया जाता है।<sup>(2)</sup> पान और सुपारी परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि धूम्रपान और तंबाकू चबाने से कई बीमारियाँ होती हैं। तम्बाकू का धुआँ जहरीला होता है और इसमें 7000 से अधिक रसायन होते हैं जिनमें से सैकड़ों हानिकारक होते हैं और 70 रसायन कर्करोग का कारण होते हैं। धूम्रपान से हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं। यह मधुमेह के नियंत्रण को भी मुश्किल बनाता है। यह न केवल प्रजनन को हानीकारक है बल्कि बच्चों और अजन्में बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।<sup>(3)</sup> अप्रत्यक्ष धूम्रपान बच्चों और वयस्कों को हानी पहुँचाता है, और धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियोंको पूरी तरह से सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका सभी घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों से धूम्रपान को हटा दे।<sup>(3,4,5)</sup> यहां तक कि जिन व्यक्तियों ने कभी धूम्रपान नहीं किया है, उनमें भी अप्रत्यक्ष धूम्रपान के धूँए से हृदय रोग, फेफड़ों का कर्करोग और हृदय विकार का झटका हो सकता है।<sup>(4,5)</sup> धूम्रहित तम्बाकू का उपयोग करने से स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव जैसे मुँह, ग्रासनली और अन्नाशय का कर्करोग होता है। यह गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल होने पर समय से पहिले प्रसव और मृतजन्म प्रसव की जोखिम बढ़ा सकता है। धुआँ रहित तंबाकू में निकोटीन होता है जो अत्यधिक नशीला होता है।<sup>(6,4)</sup> यह हृदय रोग और स्ट्रोक से मृत्यु के लिए जोखिम बढ़ा सकता है।<sup>(6,7)</sup>

वर्तमान में, भारत में लगभग 266.8 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता हैं। तंबाकू की वजह से हर साल दस लाख से अधिक भारतियों को मारता है, जो कुल मौतों का 9.5% है। मृत्यु का सबसे आम रूप हृदय रोग है।<sup>(8)</sup> हॉठ और मौखिक गुहा कर्करोग भारतीय पुरुषों में सबसे आम कर्करोग और भारतीय महिलाओं में चौथा सबसे आम कर्करोग हैं।<sup>(9)</sup>

## Number of deaths from tobacco smoking, 2016

Annual number of premature deaths from illnesses attributed to tobacco smoking.

OurWorld  
in Data



Source: Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME)

OurWorldInData.org/smoking/ • CC BY-SA

भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू धूम्रपान को प्रतिबंधित करने और तंबाकू उत्पादों और उनके विज्ञापनों की बिक्री को विनियमित करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने मई 2003 में “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) मई 2003” को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियमित किया। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, नाबालिंगों को और शैक्षिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चित्रण और तंबाकू उत्पादों के टार और निकोटीन सामग्री के विनियमन सहित मजबूत स्वास्थ्य चेतावनियों का वर्णन करना। इस पृष्ठभूमि के साथ, हम तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता करने का इरादा रखते हैं।

## तंबाकू और कर्करोग



भारत में तंबाकू सेवन अनेक बिमारीयोंका कारण है। धूम्रपान की वजह से व्यक्ति के शरीर के लगभग हर एक अवयव को हानी पहुँच सकती है।<sup>(4)</sup> भारत में हर साल तंबाकू की वजह से एक दशलक्ष लोगों की मृत्यु होती है।<sup>(8)</sup>

- 1,00,000 लोगों की कर्करोग की वजह से मृत्यु होती है।
- 4,80,000 लोगों की हृदय विकारोंकी वजह से मृत्यु होती है।
- 1,40,000 लोगों की दीर्घकालीन श्वसन विकारोंकी वजह से मृत्यु होती है।

## भारत में सेवन किए जानेवाले तंबाकू के विविध प्रकार



- धूमविरहित प्रकार - सिगारेट, बिड़ी, हुक्का, चिलम, इत्यादि
- चबाके खाने वाले प्रकार - पान, मावा, गुटका, पानमसाला, खैनी इत्यादी
- दंत मंजन - मशेरी, तंबाकूयुक्त टूथपेस्ट, मंजन

दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल सामान्य रूप में किया जाता है। पश्चिम के देशों में तंबाकू का इस्तेमाल धूम्रपान के रूप में किया जाता है।

जैसे सिगरेट, सिगार आदि।

हमारे देश में तंबाकू का इस्तमाल अलग अलग रूप में किया जाता है जो आप इस चित्र में देख सकते हैं।


हमारे देश में, शहरों में सिगरेट का इस्तमाल ज्यादा होता है और गाँव में लोग ज्यादा बीड़ी, हुक्का, चिलम लेते हैं। आजकल शहरों में युवावर्ग में हुक्का बार भी काफी प्रचलित हो गया है। हमारे देश में तंबाकू का इस्तमाल चबाने के रूप में भी किया जाता है। हमारे देश में कई प्रांतों में यह रिवाज़ है कि आए हुए मेहमान को पान दिया जाता है। तंबाकू वाला पान अपने शरीर को नुकसान पहुँचाता है। क्या आपको पता है कि बिना तंबाकू वाला पान भी हानिकारक है? पान पे ज्यादातर चूना लगाया जाता है। अगर आप पान वाले के दुकान पे कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि चूना पत्थर पर रखा जाता है। कुछ समय बाद पत्थर पतला हो जाता है और उस पर खड़े हो जाते हैं। अगर चूने का असर पत्थर पे ऐसा होता है तो आप सोचिए कि उसका असर हमारी चमड़ी पे क्या होगा जो इतनी नाजुक है?

जो लोग सिर्फ़ सुपारी लेते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है, चाहे वो मिठी हो या सादी। सुपारी में भी कैंसर करनेवाले रसायन होते हैं।

मावा में पान के बहुत सारे घटक होते हैं, पर वो पान के बदले में कागज में रखा जाता है। इसका इस्तमाल भी अपने देश में ज्यादा होता है। गुटखा भी अपने देश में काफी मशहूर है। गुटखा के पैकेट मनमोहक होते हैं जिसके कारण से बच्चों को भी आदत हो जाती है। पान मसाला, खैनी भी अपने शरीर के लिए हानिकारक है।

तंबाकू दातों और मसुडों पर लगाया जाता है जिसे मशेरी कहा जाता है। यह आदत औरतों में काफी प्रचलित है। मशेरी महाराष्ट्र के गाँवों में मशहूर है। लोगों को लगता है कि मशेरी दातों को मजबूत करती है यह गलत है। तंबाकू को जलाने से जो मशेरी बनती है वह भी नुकसान करती है। कुछ टूथपेस्ट और लाल दंत मंजन में भी तंबाकू होता है।

## तंबाकू के धोकादायक परिणाम



तंबाकू का सेवन पूरे विश्व में अलग तरीकों से किया जाता है; पर उसका परिणाम एक ही है, मृत्यु। हमारे देश में हर साल दस लाख लोग तंबाकू के वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मरते हैं।<sup>(8)</sup>

## तंबाकू के उत्पादन अनेक, परिणाम सिर्फ एक !



## मृत्यु !

जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं हमारे देश में तंबाकू का सेवन अलग अलग प्रकार से होता है। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि तंबाकू के उत्पादन अनेक है जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इत्यादि, पर उसका परिणाम सिर्फ मृत्यु है।

तंबाकू का सेवन  
मृत्यु के साथ होता है।

## तंबाकू से शरीर के विविध अंगों में कर्करोग होता है



- |             |              |
|-------------|--------------|
| ➤ मुँह      | ➤ फेफडे      |
| ➤ नाक       | ➤ आंत        |
| ➤ गला       | ➤ गुर्दा     |
| ➤ स्वरयंत्र | ➤ पेट        |
| ➤ अन्ननलिका | ➤ गर्भाशयमुख |
| ➤ मुत्राशय  |              |

तंबाकू का इस्तमाल करने से हमारे शरीर में चौदह विभिन्न अंगों में कैंसर होने की संभावना है। जैसे कि मुँह, नाक, गला, स्वरयंत्र, अन्ननली, मुत्राशय, आंत, फेफडे, पेट, गुर्दा, गर्भाशय मुख इत्यादि।

## सावधान !



- आँख बंद करके या अनदेखा करके आप सत्य परिस्थिति से इनकार नहीं कर सकते।
- यदी आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो यह आपका मँहूँ भी हो सकता है।
- सिर्फ आप ही खुदको तंबाकू से होनेवाली हानी से बचा सकते हैं। तंबाकू की वजह से सिर्फ दुःख और मृत्यु ही मिलता है।


हमारे देश में मँहूँ के कर्करोग के मरीजों की संख्या बहुत है। तंबाकु चबाने की वजह से यह खतरा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम की देशों में फेफड़ों का कर्करोग बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ लोग धूम्रपान करते हैं।

यह जो चित्र आप देख रहे हैं वह बिल्कुल लुभावना नहीं है पर अपनी आँख बंद करने से या ध्यान नहीं देने से जो सच है वह बदलने वाला नहीं है।

अगर आप तंबाकु इस्तमाल कर रहे हैं तो यह मँहूँ आपका भी हो सकता है। जो सफेद दाग मँहूँ में दिख रहा है वो कर्करोग में बदल सकता है।

सिर्फ आप अपने आपको तंबाकु के दुष्परिणामों से बचा सकते हैं। तंबाकू सिर्फ दुःख और मृत्यु देता है। तो **जिंदगी चुनिए, तंबाकू नहीं।**

## मानो या न मानो !



भारत में 80% कैंसर तम्बाकू के सेवन के कारण होता है।<sup>(11)</sup> हमने पहले ही देखा है कि तंबाकू के सेवन से हमारे शरीर में कई अंगों का कर्करोग होता है।


उदा. गला, श्वसन नलिका, अन्ननलिका इ.

इस तस्वीर में आप एक आदमी को गले में नली के साथ देख सकते हैं। आप उसकी पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि उसे अपना आहार और साँस भी कृत्रिम पाइप से लेना है।

क्या आप इस तरह की जिंदगी जीना पसंद करेंगे ?

कृपया तंबाकू सेवन के कारण होने वाली इस पीड़ा से अपने आप को बचाएँ। यह सब आपके हाथ में ही है।

## स्वास्थ्य पर धूम्रपान का दुष्परिणाम



- हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग
- दिल का दौरा
- उच्च रक्तचाप और दिल जोर से धड़कना
- लकवा
- गैंग्रीन (शरीर के अंगों में रक्त के प्रवाह में रुकावट)

इन दिनों हमें यह सुनकर ताज्जुब होता है कि कम उमर में लोगों को दिल का दौरा हो रहा है इसका मुख्य कारण तंबाकू है चाहे वो चबानेवाला हो या धूम्रपान हो, तंबाकू का सेवन करके जैसे हम अपने हृदय पर टाईम बॉम्ब रख रहे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है।

हमने पहले बताया वैसे तंबाकू की वजह से मुँह का, गले का, अन्ननली इत्यादि का कर्करोग होता है। कर्करोग के अलावा तंबाकू की वजह से और भी कई दुष्परिणाम होते हैं।

तंबाकू के सेवन की वजह से चाहे वो चबानेवाला हो या धूम्रपान हो, दिल का दौरा, हाय बीपी, हृदय की धड़कन तेज होना और खून नली की बिमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।

साथ में गँगरीन, लकवे की (पॅरालिसेस) की बिमारी हो सकती है।

## यह पैर और कितने कदम चल पाएगा?



तंबाकू सेवन की वजह से हमें गेंगरीन की बीमारी का खतरा होता है।

यह गेंगरीन क्या है?

जब पानी के पाईप में कचरा जम जाता है तो नल तक पानी ठीक से नहीं पहुँचता। वैसे ही हमारे रक्त नली तंबाकू की वजह से सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से खून शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, जैसे हाथ, पैर इत्यादि ठीक से पहुँच नहीं पाता। उसकी वजह से हाथ, पैर सड़ जाते हैं। इस बीमारी को गेंगरीन कहते हैं। कई बार गेंगरीन की बीमारी की वजह से ऑपरेशन करके हाथ या पैर काटने पड़ सकते हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पैर को गेंगरीन हुआ है क्योंकि खून वहाँ तक ठीक से नहीं पहुँच पाता।

सावधान! तंबाकू सेवन की वजह से गैंग्रीन जैसी भयानक बिमारी होती है। जिससे हाथ-पैर काटने के सिवा कोई इलाज नहीं।

## तंबाकू छोड़ने के लिए कुछ उपाय



अभी आप देख सकते हैं कि तंबाकू की वजह से शरीर पर किस तरह से हानिकारक परिणाम होते हैं। इसलिए जरूरी है कि तंबाकू का सेवन जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए।

### तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए कुछ सुझाव :

- तंबाकू की याद दिलाने वाली सारी चीजें अपने से दूर रखें। जैसे एश ट्रे, सिगरेट के पैकेट इत्यादि हटा दीजिए।
- अपने रहन-सहन में बदलाव लाए (ताकि आप उन वस्तुओं से बचे जो आपको तंबाकू की याद दिलाती है) जैसे सुबह टहलने जाए।
- जब आपको तंबाकू लेने की इच्छा हो तो तंबाकू के बदले में मुँह में सौफ, लवंग, इलायची इत्यादि रख सकते हैं।

तंबाकू लेने की इच्छा होने पर नीचे दी गई बातें याद रखें :

1. तंबाकू की सेवन में देरी करें।
2. लंबी साँसे लें।
3. धीरे-धीरे पानी पीयें।
4. अपना ध्यान किसी दुसरी ओर लगायें जैसे गाने सुनना, किताब पढना, बच्चों के साथ खेलना इत्यादि।
5. तंबाकू छोड़ने के लिए अपना इरादा पक्का रखें।

**सावधान, तंबाकू आपको नपुंसक बना सकता है !**



तंबाकू के सेवन से नपुंसकता हो सकती है।<sup>(3)</sup>

## महिलाओं में तंबाकू के कारण होनेवाली स्वास्थ्य समस्याएँ




तंबाकू सेवन महिलाओं के स्वास्थ्य पर किस तरह से परिणाम करता है यह देखते हैं।

अगर औरतें तंबाकू का सेवन करती हैं तो उन्हें यह बीमारियाँ हो सकती हैं :

- स्तन और गर्भाशय मुख का कैंसर हो सकता है।
- रजोनिवृत्ति जल्दी आती है।
- जल्दी बुढ़ापा आना।
- माँ ना बन पाना।
- गर्भपात होना।
- हड्डीयाँ कमजोर होना।

## गर्भावस्था में तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम




गर्भावस्था में तंबाकू सेवन करने से उसके दुष्परिणाम सिर्फ उस महिलापर ही नहीं तो उसके होनेवाले बच्चे पर भी हो सकता है।<sup>(3,4,11)</sup>

जैसे :

- स्त्री का गर्भपात हो सकता है।
- बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है।
- समय से पहले ही बच्चा पैदा हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों में विविध बिमारियाँ या मौत का खतरा हो सकता है।

## क्या आपका बच्चा इस हवा में साँस ले सकता है?



क्या आप जानते हैं कि जब आप धूम्रपान कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी सिगरेट / बीड़ी के धुएँ को साँस द्वारा शरीर में खींच रहा है?

आपकी धूम्रपान की आदत से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है जिससे उन्हें विविध बिमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि :

- फेफड़ों की बिमारियाँ
- दमा की बीमारी
- कान का इन्फेक्शन
- कर्करोग

क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों को आपकी वजह से तकलिफ हो?

## तंबाकू के धूएं में मौजूद घटकों की संरचना



क्या आपको पता है तंबाकू इतना खतरनाक क्यों है? **तंबाकू के धूएं में 7000 से ज्यादा रसायनिक तत्व होते हैं।<sup>(3)</sup>** इस चित्र में कुछ रसायनिक तत्व दिए गए हैं जैसे कि :

- अमोनिया - टॉयलेट क्लिनर/फर्श
- इथनॉल - शराब
- एसिटोन - नेल पॉलिश रिमूवर
- फिनाइल - कीटाणुनाशक
- स्टीयरिक एसिड - मोम
- नैथ्रलीन - मॉथबॉल्स
- विनायल क्लोरोइड - पी वी सी बनाने के लिए
- आर्सेनिक - जहर
- फार्मालीन - कपड़ों में संरक्षक रूप में इस्तेमाल
- निकोटीन - जहर/नशाकारक
- हायड्रोजन सायनाइड - जहर
- टार - हानिकारक धुंआ
- कार्बन मोनोक्साइड - कार से निकला हुआ धुंआ
- नाइट्रोबैंजीन - पेट्रोल एडिटिव
- ब्यूटेन - सिगरेट लायटर में इस्तमाल
- एसिटिक एसिड - सिरका
- टॉल्यून - इंडस्ट्रियल सॉल्वेन्ट
- मिथेन - पेट्रोलियम गैस
- कैडमियम - कार बैटरी में इस्तमाल
- डीडीटी/डायेल्फ्रॉन - कीटाणुनाशक
- ऑक्साइड्स - नाइट्रोजन
- हेक्सामाइन - स्फोटक पदार्थ

क्या अभी भी आप धूम्रपान करना चाहेंगे?

## जब आप धूम्रपान की मजा ले रहे होते हैं तब.....



हमने देखा है कि सिगरेट के धुएँ में कितने हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। उनमें से ज्यादातर इतने खतरनाक हैं कि अगर बड़ी मात्रा में लिया जाए तो यह मौत का कारण बन सकता है।

**क्या आप अभी भी धूम्रपान करना चाहते हैं?**

तंबाकू का धुआँ न केवल आपको प्रभावित करता है, बल्कि आपके साथ रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वे आपके समान ही जहरीली हवा में साँस लेते हैं। हम दुनिया में अकेले नहीं रहते हैं, लेकिन हम अपने प्रियजनों से घिरे हुए हैं। इस तस्वीर में हम एक आदमी को देख सकते हैं जो एक पाइप से धूम्रपान करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ, उसके परिवार के सदस्य भी धूम्रपान से निकलने वाले धुएँ में जल रहे हैं। जब भी आप धूम्रपान का आनंद ले रहे होते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने प्रियजनों के जीवन को भी जला रहे होते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तंबाकू से दूर रहें!

## जीवन एक, खोने के तरीके अनेक !



हम जिंदगी एक ही बार जीते हैं और यह जीवन को बढ़ाना है या घटाना है वो हमारे हाथ में है। ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिससे अपनी जिन्दगी कम हो सकती हैं।

- एक सिगरेट लेने से एक साँस कम हो जाती है।
- एक बीड़ी लेने से दो साँसें कम हो जाती है।
- एक पैकेट गुटखा खाने से चार साँसें कम हो जाती है।

**तंबाकू केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार की सेहत को भी बिगाड़ता है।**

अप्रत्यक्ष धूम्रपान आपके प्रियजनों को नुकसान पहुँचाता है। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो 75 प्रतिशत धुँआ बाहर निकलता है और आसपास के लोगों के शरीर में जाता है।

अगर परिवार में कोई तंबाकू का सेवन करता है, तो बच्चे, बड़ों की नकल करके तंबाकू का उपयोग शुरू कर सकते हैं। क्या आप अपने परिवार को इस प्यार की सजा देना चाहेंगे ?

जीवन है आपका मर्जी भी आपकी !

इनसे दूर रहे वरना इन सबको अपनाएँ




बीड़ी / सिगरेट

गुटखा

पान

नसवार



फेफड़ों का कैंसर

गले का कैंसर

बदबूवार झांस /  
गंदे दांत

मुँह के आले

जीवन है आपका, मर्जी है आपकी।

दुनिया भर में कर्करोग के बारे में संशोधन चल रहा है, जिससे लोगों का आयुष्य बढ़ सके लेकिन लोग खुद अपना आयुष्य कम कर रहे हैं, व्यसन के बजह से, तो ये आपका निर्णय है कि आपको जीवन चुनना है कि मृत्यु ?

तंबाकू के रूप अनेक, उनसे मिलती पीड़ा अनेक, परंतु अंत केवल एक।


## क्या आपकी मेहनत की कमाई तंबाकू का धुआँ बन रही है?



तंबाकू का सेवन बंद करें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें  
और अपने मेहनत की कमाई की बचत करें!

हम लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जो अच्छी चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब हम तंबाकू खरीदते हैं तो हम सिर्फ तंबाकू के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं लेकिन उसके साथ आगे चलके उसकी वजह से जो बिमारियाँ होगी उसके उपर भी हमें खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए अकलमंदी इसी में ही है कि हम लोग तंबाकू का उपयोग बंद करे और अपनी सेहत की रक्षा करें और पैसे की बचत करें।

## ऊँचे लोग ऊँची पसंद !




तंबाकू का उपयोग करने वाले लोग इतने ऊँचाई तक पहुँचते हैं  
कि वे "वापस नहीं" आ सकते !

तंबाकू का आनंद लें .... जीवन की कीमत चुकाएं!

तंबाकू की कंपनी वाले अपना तंबाकू बेचने के लिए बडे बडे लुभावने इश्तिहार देते हैं जैसे "**ऊँचे लोग ऊँची पसंद**" का इश्तिहार सुनके हमें लगता है कि इस तंबाकू का उपयोग करके समाज में हमारा मान-सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन असल में यह बिल्कुल गलत है। कोई भी नाम का तंबाकू लेने से हम इतनी ऊँचाई पर पहुँच जायेंगे जहाँ से लौटके नहीं आ सकते। मतलब लोगों को कम उम्र में ही मौत की सजा मिल जाएगी। **तंबाकू की पसंद** के लिए जिंदगी देकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

ऐसे दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती का क्या फायदा जो तुम्हारे लिए मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है?



आपके सच्चे दोस्त कौन हैं?

जाहिर है जो आपके शुभचिंतक हैं और जो आपकी परवाह करते हैं!

ऐसे दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती का क्या फायदा जो आपके लिए मौत को न्योता दे रहे हैं?


यदि आपके दोस्त आपको तंबाकू के रूप में मौत की पेशकश कर रहे हैं, तो क्या उन्हें दोस्त या दुश्मन कहा जाना चाहिए? इसके बारे में सोचो। यह आपके हाथ में है कि जीवन को स्वीकार करें या अपने दोस्तों को खुश करें।

दृढ़ता से "तंबाकू के लिए नहीं कहो", जो कोई भी आपको तंबाकू देता है!

जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार टूट जाता है।

क्या आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार आपकी दोस्ती की कीमत चुकाए?

## क्या आप तंबाकू सेवन के दुष्चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं?



यदि आपको तम्बाकू छोड़ने का महत्व समझ में आया है, लेकिन आपको लगता है कि आप तंबाकू की आदत से बुरी तरह फंस गए हैं, तो भी उम्मीद मत खोड़ए!

लाखों लोगों ने तंबाकू की आदत छोड़ दी है, आप भी कर सकते हैं।

### कैसे?

- सबसे पहले और महत्वपूर्ण अपने मन की तैयारी करें। तंबाकू सेवन से मिलने वाले क्षणिक आनंद के बजाय लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू की आदत छोड़ दें।
- तंबाकू छोड़ने की तारीख निर्धारित करें। तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा समय तुरंत शुरू होता है। यदि नहीं, तो कम से कम एक सप्ताह के भीतर आपको तम्बाकू छोड़ देना चाहिए।
- जो आपको तंबाकू की याद दिलाती हैं, ऐसी सभी चीजें दूर रखें।
- जहां आपको फिर से तंबाकू का उपयोग शुरू करने की संभावना है, उन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें।
- अगर आपको लगता है कि आप खुद तंबाकू की आदत नहीं छोड़ सकते, तो व्यावसायिक विशेषज्ञों की मदद लें।
- आपको असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आपको दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।


तंबाकू और मद्यपान सेवन बंद करें।



ये बहुत जरूरी है कि आपका रहन सहन ऐसा हो जिससे आपका स्वास्थ अच्छा रहे। तंबाकू और शराब का सेवन ना करे और मुँह की सफाई बनाये रखें। स्वस्थ आहार भी लेना महत्वपूर्ण है।

तो स्वस्थ आहार क्या होता है ? स्वस्थ आहार में ज्यादा से ज्यादा दाल, हरी सब्जियाँ, फल, मांस-मच्छी, अंडे ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए और चरबीयुक्त/तली हुआई चीजें आहार कम होनी चाहिए।

## किसी भी स्वरूप के तंबाकू का सेवन मृत्यु को न्योता है।



यह आदमी तम्बाकू का गुलाम बनकर मरने के कगार पर है, क्या आप खुद को इस तरह से देखना पसंद करेंगे?

यह सब सुनने के बाद, यदि आप अभी भी तंबाकू सेवन नहीं करते हैं तो क्या आप इसकी शुरुआत करना चाहेंगे? यदि आप पहले से ही तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या आप इसे जारी रखना चाहेंगे?

यदी आपको तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए मदद की आवश्यकता है तो हमें संपर्क करें :

तंबाखू व्यसनमुक्ती केंद्र  
प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी विभाग  
टाटा मेमोरिअल सेंटर  
डॉ. ई. बोर्जस मार्ग, परेल  
मुंबई 400012  
दूरध्वनी क्र: 24154379  
ई-मेल : [preventive@tmc.gov.in](mailto:preventive@tmc.gov.in)

## निष्कर्ष

तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है बल्कि कैंसर का कारण भी बनता है। लगभग 80-90% मुँह के कैंसर के लिए सीधे तंबाकू का उपयोग जिम्मेदार हैं। दुनिया में मुँह के कैंसर का एक तिहाई हिस्सा अकेले भारत में है। यह अनुमान है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 3500 लोगों की तंबाकू के उपयोग के कारण मृत्यु होती हैं। ज्यादातर मामलों में बीमारी का जल्दी पता लगाना और अनैदानिक कर्करोग का पूर्वावस्था में ही पता लगाना जान बचा सकता है। एक योजनाबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनसंख्या में तंबाकू के सेवन को कम करने में सहायता कर सकता है और इस प्रकार तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बोझ को कम करता है। इस पुस्तिका में हमने तंबाकू, तंबाकू और कर्करोग के हानिकारक प्रभावों, तंबाकू छोड़ने के तरीके, गर्भावस्था में तंबाकू के प्रभाव और बच्चों और परिवार में अप्रत्यक्ष धूम्रपान के प्रभावों से संबंधित विषयों को शामिल किया है। यह आरोग्यसेवा कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी पठन सामग्री के रूप में काम करेगा और तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने में उनकी मदद करेगा।

## संदर्भ

1. Gupta PC, Ball K. India — tobacco tragedy. *Lancet*: 1990;335:594-5.
2. World Health Organization. Tobacco or health: a global status report.(last accessed on 11.3.2019)
3. U.S. Department of Health and Human Services. A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010 (Last accessed on 12.3.2019)
4. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014 (last accessed on 12.3.2019)
5. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006 [accessed 12.03.19].
6. World Health Organization. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 89: Smokeless Tobacco and Some Tobacco-Specific N-NitrosaminesCdc-pdfExternal. [PDF-3.18 MB] Lyon (France): World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 2007 (last accessed on 22.3.2019)
7. Piano MR, Benowitz NL, Fitzgerald GA, Corbridge S, Heath J, Hahn E, et al. Impact of Smokeless Tobacco Products on Cardiovascular Disease:

- Implications for Policy, Prevention, and Treatment: A Policy Statement from the American Heart Association. *Circulation* 2010;122(15):1520-44.
8. World Health Organization India fact sheet 2018 (last accessed on 11.3.2019)  
[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272672/wntd\\_2018\\_india\\_fs.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272672/wntd_2018_india_fs.pdf)
  9. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018 Sep 12.
  10. NCRP - Consolidated Report of Hospital Based Cancer Registries 2007-2011, National Cancer Registry Programme (Indian Council of Medical Research), Bangalore, 2013.
  11. U.S. Department of Health and Human Services. Women and Smoking: A Report of the Surgeon General. Rockville (MD): U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Surgeon General, 2001. (last accessed on 11.3.2019)





9789382963387